



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5]
No. 5]

नई दिल्ली, जनवरी 25,—जनवरी 31, 2004, शनिवार/माघ 5—माघ 11, 1925
NEW DELHI, JANUARY 25,—JANUARY 31, 2004, SATURDAY/MAGHA 5—MAGHA 11, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2004

सा. का. नि. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, इलैक्ट्रानिकी और ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, इलैक्ट्रानिकी भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, इलैक्ट्रानिकी और ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, इलैक्ट्रानिकी भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, इलैक्ट्रानिकी और ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, इलैक्ट्रानिकी भर्ती नियम, 1985 की अनुसूची में, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, इलैक्ट्रानिकी पद से संबंधित क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

2. 1. पद का नाम	: ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (इलैक्ट्रानिकी)
2. पदों की संख्या	: 1* (2003)
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. वर्गीकरण : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसन्धित
4. वेतनमान : रु. 5500-175-9000
5. चयन अथवा अचयन पद : लागू नहीं होता
6. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं : लागू नहीं होता
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा : 30 वर्ष से अधिक नहीं

टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :

आवश्यक:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रॉनिक्स एक विषय के रूप में सहित भौतिकी में मास्टर डिग्री या इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या समतुल्य।

टिप्पण 1 :—अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय : (i) इलैक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन, विकास या मानकीकरण कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

(ii) इलैक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम कार्यक्रम के विभाग के अधीन "ओ" स्तर डिप्लोमा।

9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :

लागू नहीं होता

10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष और सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन अधिवर्षिता की तारीख से पहले तक।

11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।

(सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए :—प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन)।

12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा :

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र और मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं और स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में रु. 5000-8000 के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में रु. 4500—7000 या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की है; या

(iv) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में रु. 4000—6000 या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए :—

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के ऐसे कनिष्ठ कमिशन आफिसर की पंक्ति के कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। यदि चयन कर लिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसा उपयुक्त अधिकारी पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गया है या उसे रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है, तो उसकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक)।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :—

सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों और सशस्त्र बल कार्मिक के पुनर्नियोजन की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए :

- | | |
|--|----------|
| 1. निदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो | —अध्यक्ष |
| 2. उप निदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो | —सदस्य |
| 3. उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय | —सदस्य |

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : किसी व्यक्ति की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर और पुनर्नियोजन करने पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 2/7/95-प्रशा.-I/बी.पी.आर. एंड डी./पी.एम.-II]

दलीप कपूर, डैस्क अधिकारी (पी.एम.-II)

टिप्पणी — 1. मूल नियम सा.का.नि. सं. 1135 तारीख 14-12-85 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 960 तारीख 8-11-1986 द्वारा संशोधित किए गए थे।

2. ये नियम आगे (केवल वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी—इलेक्ट्रॉनिक्स के पद हेतु) सा.का.नि. सं. 33 तारीख 29-1-2000 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd January, 2004

G.S.R. 29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Bureau of Police Research and Development Senior Scientific Officer Electronics and Senior Scientific Assistant, Electronics Recruitment Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Bureau of Police Research and Development Senior Scientific Officer, Electronics and Senior Scientific Assistant, Electronics Recruitment (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Bureau of Police Research and Development Senior Scientific Officer, Electronics and Senior Scientific Assistant, Electronics Recruitment Rules, 1985, for serial number 2. Relating to the post of Senior Scientific Assistant, Electronics and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

“2. 1. Name of post	: Senior Scientific Assistant (Electronics)
2. Number of post	: 1* (2003)
	*Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 5500-175-9000
5. Whether selection or Non-Selection Post	: Not applicable
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable
7. Age limit for direct recruits	: Not exceeding 30 years.

Note 1 : Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

8. Educational and other qualifications required for direct recruits	: Essential : Master’s degree in Physics with electronics as a subject or Bachelor’s degree in Electronics Engineering from a recognised university or equivalent.
--	--

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.

Desirable :

(i) Two years’ experience in Research, Design, Development or Standardization in the field of electronics.

- (ii) "O" level diploma under Department of Electronics Accredited Computer Courses Programme.
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. : Not applicable
10. Period of probation, if any. : Two years for direct recruits and armed forces personnel re-employed before superannuation
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods. : Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.
For Armed Forces Personnel
Deputation/Re-employment
12. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made. : **Deputation (including short-term contract) :**
Officers under the Central Government/State Government/Union Territories/Universities/Recognised Research Institutions/
Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory/
Autonomous Organisations :
- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
- (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; or
- (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre/department; or
- (iv) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4000-6000 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8.

For Armed Forces Personnel**Deputation/Re-employment**

The armed forces personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from armed forces. Thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment shall be on re-employment basis (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).

(Period of deputation/contract including the period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. : **Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation of direct recruits and Armed Forces Personnel/ Re-employed :—**
- (i) Director, Bureau of Police Research and Development —Chairman
- (ii) Deputy Director, Bureau of Police Research and Development —Member
- (iii) Deputy Secretary/Director, Ministry of Home Affairs —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. : Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing a person on deputation/contract basis and making re-employment.

[F.No. 2/7/95-Admn. I/BPR&D/PM-II]

DALIP KAPUR, Desk Officer (PM-II)

- Note :** 1. The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 1135 dated 14-12-1985 and subsequently amended vide GSR 960 dated 8-11-1986.
2. These rules were further amended (only for the post of Senior Scientific Officer—Electronics) vide GSR 33 dated 29-01-2000.

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2004

सा. का. नि. 30.—भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3 (i) में दिनांक 13-5-2003 को प्रकाशित, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति विभाग, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, निजी सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियमावली, 2003 की अधिसूचना में दिनांक 17 अप्रैल, 2003 के सामान्य कानूनी नियम 189 की अनुसूची के कॉलम 7 में,—

"27 वर्ष" वाक्यांश को "27 वर्षों तक" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 1-4/97-एम-II]

एस. के. कपूर, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE

(Department of Culture)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th January, 2004

G.S.R. 30.—In the Notification of the Ministry of Tourism and Culture, Department of Culture, National Gallery of Modern Art, Personal Assistant, Group 'C' post Recruitment Rules, 2003 published in Gazette of India Part-II, Section 3(i), dated 13-5-2003 in No. GSR 189 dated the 17th April, 2003 in the Schedule, under column 7,—

For "27 years," read "27 upto years".

[F.No. 1-4/97-M-II]

S.K. KAPUR, Under Secy.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2004

सा. का. नि. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सहायक पशुचिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय प्राणि उद्यान (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण

से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्राणि उद्यान में सहायक पशुचिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्राणि उद्यान (सहायक पशुचिकित्सा अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. पद का नाम	: सहायक पशुचिकित्सा अधिकारी
2. पदों की संख्या	: 1*
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	: साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसूचित
4. वेतनमान	: 8000-275-13500 रुपए
5. चयन अथवा अचयन पद	: लागू नहीं होता
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	: 35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
	टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	: लागू नहीं होता

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : आवश्यक :—
 अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (i) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् विनियम, 1993 के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में बैचलर डिग्री समतुल्य (पशुचिकित्सा डिग्री शिक्षा का न्यूनतम मानक पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में बैचलर डिग्री)
 (ii) वन्य पशुओं और पंजिरों में बंद पक्षियों को संभालने और उनका उपचार करने का तीन वर्ष का अनुभव।
 वांछनीय :—पशुपालन और पशुचिकित्सा विज्ञान में मास्टर डिग्री और/या वन्य पशुओं को संभालने का व्यवहारिक अनुभव।
 टिप्पण 1:—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
 टिप्पण 2:—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता
 विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो : दो वर्ष
11. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा
 भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली पदों की प्रतिशतता
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा : लागू नहीं होता
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना : पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—
 1. महानिरीक्षक, वन्य पर्यावरण और वन मंत्रालय —अध्यक्ष
 2. निदेशक, राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, नई दिल्ली —सदस्य
 3. संयुक्त निदेशक, (वन्य जीवन), पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य
 2. पशुचिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, नई दिल्ली —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 9-2/98-एफ. ई.]

सी. एल. लंगायेन, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 14th January, 2004

G. S. R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of Assistant Veterinary Officer, National Zoological Park, (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Veterinary Officer, National Zoological Park, under the Ministry of Environment and Forests, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called National Zoological Park, (Assistant Veterinary Officer) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	: Assistant Veterinary Officer
2. Number of post	: 1* (2003)
	*Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	: General Central Services, (Group 'A'), Gazetted, Non-Ministerial
4. Scale of pay	: Rs. 8000-275-13500
5. Whether selection post or Non-Selection Post	: Not applicable
6. Age limit for direct recruits	: Not exceeding 35 years.
	(Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
	Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Sikkim, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).
7. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	: Not applicable

8. Educational and other qualifications required for direct recruits : **Essential :—**
 (i) A degree in Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognized University or equivalent as per Veterinary Council of India (Minimum standards of Veterinary Education degree Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry) Regulations, 1993.
 (ii) Three years experience in handling and treatment of wild animals and birds in captivity.
DESIRABLE :
 A Master's degree in Animal Husbandry and Veterinary Science and/or practical experience of treating wildlife.
Note I : Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.
Note II : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the the post reserved for them.
9. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees : Not applicable
10. Period of probation, if any : Two years
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods : Direct recruitment
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made : Not applicable
13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : **Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation :—**
 (1) Inspector General Forests, Ministry of Environment and Forests —Chairman
 (2) Director, National Zoological Park, New Delhi —Member
 (3) Joint Director (Wild life), Ministry of Environment and Forests —Member
 (4) Veterinary Officer, National Zoological Park, New Delhi —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment : Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. 9-2/98-FE]

C.L. LANGAIN, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2004.

सा. का. नि. 32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल आयोग (अननुसचिवीय समूह "ग" पद, बेतार सेवा) भर्ती नियम, 2002, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग (अनुसूचिवीय समूह "ग" पद, बेतार सेवा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जल आयोग (अनुसूचिवीय समूह "ग" पद, बेतार सेवा) भर्ती नियम, 2002, की अनुसूची के स्तंभ 12 में—

(क) पैरा 1 में अंक और शब्द "90 प्रतिशत" के स्थान पर अंक और शब्द "75 प्रतिशत" रखे जाएंगे; और

(ख) पैरा 2 में अंक और शब्द "10 प्रतिशत" के स्थान पर अंक और शब्द "25 प्रतिशत" रखे जाएंगे।

[फा. सं. 35/1/2002-स्थापना-1]

अशोक झा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 11-1-2003 में सा.का.नि. संख्या 24 तारीख 19-12-2002 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 16th January, 2004

G.S.R. 32.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Water Commission, (Non-Ministerial Group 'C' posts, Wireless Services) Recruitment Rules, 2002, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Water Commission (Non-Ministerial Group 'C' posts, Wireless Services) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Water Commission (Non-Ministerial Group 'C' posts, Wireless Services) Recruitment Rules, 2002, in column 12:—

(a) in paragraph 1 for the figure and expression "90%", the figure and expression "75%" shall be substituted; and

(b) in paragraph 2 for the figure and expression "10%", the figure and expression "25%" shall be substituted.

[F. No. 35/1/2002-Estt. I]

ASHOK JHA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-Section (i) dated 11-1-2003 vide GSR No. 24 dated 19-12-2002.

MINISTRY OF LABOUR

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th January, 2004

G.S.R. 33.— The Recruitment Rules of Office Superintendent was published in the Gazette issued on 8th November, 2003 vide G.S.R. No. 396, Page No. 2458, item No. 11 of the Schedule.

For

25% promotion failing which by deputation

75% promotion failing which by deputation

50% deputation

Read

25% promotion failing which by deputation

75% deputation

[No. DGET-A-12017(1)/2002-WOT]

C. P. SHARMA, Dy. Director of Training